

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(तृतीय सत्र)

लिखित उत्तर हेतु प्रश्न

बुधवार, 29 अगस्त, 2018/7 भाद्रपद, 1940 (शक् )

----

[मुख्य मन्त्री - सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री - खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री - शिक्षा मन्त्री - बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री - शहरी विकास मन्त्री - कृषि मन्त्री - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री - ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री - उद्योग मन्त्री - वन मन्त्री तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री ].

कुल प्रश्न - 9

----

कीरतपुर- नेरचौक फोरलेन सड़क

153 श्री राम लाल ठाकुर (श्री नैना देवीजी):

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) यह सत्य है कि ग्राम पंचायत कल्लर में कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन सड़क निर्माण कार्य के कारण लोगों के मकान व जमीनें धंस रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार व NHAI द्वारा लोगों के नुकसान की भरपाई हेतु क्या योजना तैयार की गई है; ब्यौरा दें?

----

Sanction of funds

154 Sh. Harshwardhan Chauhan (Shillai):

Will the **Chief Minister** be pleased to state how much funds have been sanctioned by the Deputy Commissioner Sirmour under various heads in the Development Blocks of Sirmour during the last 6 months; details be given?

----

## सड़क निर्माण

155 श्री बलबीर सिंह वर्मा (चौपाल):

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) गत तीन वर्षों में चौपाल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग में कितनी सड़कें स्वीकृत हुईं कितनी निर्मित हुईं; सड़कों का नाम सहित ब्यौरा दें;

(ख) ऐसी कितनी सड़कें अधूरी हैं; उन्हें कब तक पूर्ण किया जाएगा, सड़कों का नाम सहित ब्यौरा दें; और

(ग) ऐसी कितनी पंचायतें हैं जोकि सड़क रहित हैं; पंचायतवार ब्यौरा दें?

----

## लो-वोल्टेज समस्या

156 श्री बलबीर सिंह वर्मा (चौपाल):

क्या बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) विद्युत विभाग द्वारा चौपाल मण्डल में ट्रांसफार्मर स्थापित करने के लिए सरकार ने कितनी धनराशि उपलब्ध करवाई है, आठ महीनों के अन्दर कितने ट्रांसफार्मर मण्डल में भेजे गए हैं, किस-किस स्थान पर लगाने प्रस्तावित हैं, कितनी अवधि के भीतर लगा दिए जायेंगे; ब्यौरा दें; और

(ख) चौपाल मण्डल में जे.ई. और एस.डी.ओ सहित फील्ड अधिकारियों के कितने पद रिक्त हैं, कितना स्टाफ आंशिक रूप से Handicapped है तथा उनका कार्य कौन कर रहा है; ब्यौरा दें?

----

## प्राकृतिक आपदा राहत

157 श्री नरेन्द्र ठाकुर (हमीरपुर):

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में हमीरपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में Calamity Relief Fund (C.R.F), Natural Calamity Relief Fund (N.C.R.F) के अन्तर्गत किस विभाग द्वारा, किस व्यक्ति को, किन कार्यों के लिए कितनी-कितनी धनराशि दी गई; ब्यौरा दें?

----

## स्टोन क्रशरों में जनरेटर का प्रयोग

158 श्री रविन्द्र कुमार (जयसिंहपुर):

क्या उद्योग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) प्रदेश में ऐसे कितने स्टोन क्रशर हैं जिनमें विद्युत विभाग के कनेक्शन होने के साथ-साथ जनरेटर सैट के प्रयोग की भी स्वीकृति प्रदान की गई है; और

(ख) राजस्व वसूली करते समय जनरेटर सैट से उत्पादित मैटीरियल की मेजरमेंट कैसे की जाती है; गत दो वर्षों में कितनी राशि वसूल हुई; सूचना सभा पटल पर रखी जाए?

----

## विकेन्द्रीयकृत नियोजन कार्यक्रम के तहत स्वीकृत धनराशि

159 श्री रमेश चंद धवाला (ज्वालामुखी):

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ज्वालामुखी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कितनी धनराशि किस-किस मद में स्वीकृत की गई; कितनी प्राप्त हुई और कितनी शेष है; ब्यौरा दें?

----

## सामुदायिक भवन

160 श्री रमेश चंद धवाला (ज्वालामुखी):

क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ज्वालामुखी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कितने सामुदायिक भवन हैं; कितने निर्माणाधीन हैं; इनके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी तथा कितनी व्यय की गई; ब्यौरा दें ?

----

## Project Advisory Committee

161 Sh. Jagat Singh Negi (Kinnaur):

Will the **Agriculture Minister** be pleased to state whether it is a fact that local MLA's are Chairperosns of Lahual & Spiti, Bharmour and Pangi ITDPs Project Advisory Committies and Deputy Commissioner Kinnaur is Chairperson of ITDP Project Advisory Committee, Kinnaur; what are the reasons?

----

Shimla : 171004.

Dated: 13th August, 2018.

Yash Paul Sharma,

Secretary.

